

## पाठ – 10 ( एक दिन की बादशाहत )

### कठिन शब्द

1. झिंझोडकर
2. पाबंदी
3. टर्ना
4. दुश्मनी
5. खिदमत
6. गुसलखाना
7. शर्मिदा
8. निहायत
9. चवन्नी
10. दरखास्त

### शब्द –अर्थ

1. पाबंदी – रोक –टोक
2. तरकीब – योजना
3. दरखास्त- अर्जी
4. इकरार – बताना
5. तक़रार – भिड़ना
6. उधम – शरारत
7. खिदमत – चापलूसी

### विलोम शब्द

1. सपने x हक़ीक़त
2. तीखा x मीठा
3. शर्मिदा x गर्वित
4. लापरवाही x ध्यानपूर्वक
5. पाबंदी x इजाजत

### वचन बदलो

1. कब्बाली – कब्बलियाँ
2. मुर्गी - मुर्गियाँ
3. तरकीब - तरकीबें
4. पाबंदी – पाबन्दियाँ
5. निवाला – निवाले
6. फिल्म – फिल्में

### विशेषण शब्द

1. भारी साड़ी
2. गंदे कपड़े
3. तीखा भोजन
4. मीठी मिठाई
5. बेसुरा गजल

### निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो

1. जान मुसीबत में होना – मुश्किल में होना
2. हाथों में सिर थामना – दुखी हो जाना
3. हाथ धो के पीछे पड़ना – बुरी तरह पीछे पड़ जाना
4. खून का घूंट पी जाना – गुस्सा सहन कर जाना

### प्रश्न –उत्तर

#### प्रश्न -1 अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ़ की बात मान ली ?

उत्तर – अब्बा ने बच्चों का दिल रखने के लिए आरिफ़ की बात मान ली !

#### प्रश्न -2 अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए ?

उत्तर – अम्मी के अधिकार आरिफ़ और सलीम ने छीन लिए !

#### प्रश्न -3 बादशाहत क्या होती है ?

उत्तर – बादशाहत एक ऐसी भावना या शक्ति होती है , जिसमे व्यक्ति को वे सारे अधिकार मिल जाते हैं जिनसे वह दूसरों पर राज करता है !

#### प्रश्न – 4 कहानी में किन –किन चीजों को तर माल कहा गया है ?

उत्तर – कहानी में अंडे और मक्खन को तर माल कहा गया है !

#### प्रश्न -5 आरिफ़ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी ?

उत्तर – आरिफ़ और सलीम की जान मुसीबत में इसलिए थी क्योंकि उनके घरवाले उन्हें हर बात पर रोकते टोकते थे !

#### प्रश्न- 6 सलीम ने अम्मी को क्या कहा ?

उत्तर – सलीम ने अम्मी को दाँत माँजने को कहा !

**प्रश्न -7 अब्बा आरिफ़ और सलीम के लिए क्या इकरार कर बैठे ?**

उत्तर – अब्बा आरिफ़ और सलीम के लिए यह इकरार कर बैठे कि एक दिन के लिए उन्हें घर के बड़े लोगों के सारे अधिकार दे दिये जाएंगे !